



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309]  
No. 309]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1984/आषाढ़ 9, 1906  
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1984/ASADHA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 जून, 1984

का० आ० 481 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि-  
नियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा  
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय  
सरकार, बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर 30-6-1984 से  
गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण  
बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार राज्य के गिरिडीह  
जिले को स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[सं० एक० 1-8/84-आर० आर० बी० (1)]

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)  
(BANKING DIVISION)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th June, 1984

S.O. 481(E).—In exercise of the powers conferred  
by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural

Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Govern-  
ment on being requested so to do by Bank of India,  
establishes with effect from the 30-6-1984 a Regional  
Rural Bank in the State of Bihar under the name of  
Giridih Kshetriya Gramin Bank which shall operate  
within the local limits of the district of Giridih in the  
State of Bihar.

[No. F. 1-8/84-RRB(I)]

का० आ० 482 (अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक  
अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की  
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा गिरिडीह क्षेत्रीय  
ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके,  
गिरिडीह का उम स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां  
पर गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक० 1-8-84-बी०आर०आर०बी० (2)]

S.O. 482(E).—In pursuance of the powers con-  
ferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional  
Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central  
Government after consultation with the Reserve Bank  
of India and Bank of India by which Giridih Kshetriya  
Gramin Bank has been sponsored, specifies Giridih

as the place where Giridih Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-8/84-RRB(II)]

का० आ० 483 (अ) :- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह का प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ० 1-8/84-आर०आर०बी० (3)]

S.O. 483(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Giridih Kshetriya Gramin Bank, Giridih being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-8/84-RRB(III)]

का० आ० 484 (अ) :- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डा० उमेश राय को गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा तथा 30 जून, 1984 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1987 तक समाप्त होने वाली अवधि का उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान डा० उमेश राय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ०-1-8/484-आर०आर०बी० (4)]

अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

S.O. 484(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Dr. Umesh Rai as the

Chairman of the Giridih Kshetriya Gramin Bank, Giridih and specifies the period commencing on the 30th June, 1984 and ending with the 30th June, 1987 as the period for which the said Dr. Umesh Rai shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-8/84-RRB(IV)]

A. K. AGARWAL, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग

अधिसूचना

बंबई, 30 जून, 1984

का०आ० 485 (अ) :- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक का समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :-

“गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह (बिहार)”

[आर०पी०सी०डी० संख्या 289/आई०एन०सी०एल०/311-84]

टी० एन० अनन्तराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

RURAL PLANNING & CREDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bombay, the 30th June, 1984

S.O. 485(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

“GIRIDIH KSHETRIYA GRAMIN BANK, GIRIDIH (BIHAR)”.

[Ref. RPCD. 289/INCL/311-E]

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director